



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 1151 राँची, सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

26 नवम्बर, 2018

आदेश संख्या-5/आरोप-1-106/2018 का.-8501-- श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर को माननीय विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० धनबाद द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-7541, दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 10 अगस्त, 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. श्री चौधरी द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को विभाग में योगदान समर्पित किया है।

3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री चौधरी द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 के

प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 29 अक्टूबर, 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है। जहाँ ये विभागीय परिपत्र सं०-3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----